



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/ 8723 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Nawalgarh has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Nawalgarh. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगरपालिका नवलगढ़ जिला-झुन्झुनू (राज0)

प्रोफार्मा "क"

नगरीय निकाय - नवलगढ़ (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का गठन)

वार्ड सं.	विवरण
१	रेलवे के उतरी सिग्नल से दक्षिण की तरफ रेलवे लाईन-लाईन फिर वहा से पूर्व की तरफ घूमकर सरकारी गोदाम, बिरबल सिंह ढाका का मकान शामिल करते हुए श्रीराम मील, विनोद मील, सज्जन मील के मकानो को छोड़ते हुए फिर पूर्व दिशा की तरफ आगे सरकारी महाविद्यालय एवं बस डिपो को छोड़ते हुए व नवलगढ़ प्लाजा को शामिल करते हुए न्यू जयपुर लोहारू हाईवे रोड क्रॉस कर पूर्व दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए आमना कॉलोनी को शामिल करते हुए सड़क-सड़क आपणी ढाणी को छोड़ते हुए व बंसीधर सैनी के मकान को छोड़ते हुए, केशरदेव चोबदार के जांव को शामिल कर पुरानी जयपुर लोहारू रोड तक फिर उतर दिशा में सड़क-सड़क कब्रिस्तान को शामिल कर सेडू वाली ढाणी बस स्टेण्ड पर वहा से उतर दिशा की तरफ सड़क-सड़क सेडू वाली ढाणी शिवालय शामिल कर कुम्हारो की प्याऊ को दाहिना छोड़ते हुए भोपा वाली ढाणी, कासम खान का मकान/दुकान, राजकीय अस्पताल को शामिल करते हुए, सैनी छात्रावास का दाहिना छोड़ते हुए उतरी सीमा तक वहा से पश्चिम दिशा की तरफ सीमा-सीमा ढाणी सेठ वाली, गुमानीराम की ढाणी शामिल कर दक्षिण में बदराणा जोहड़ की भूमि मकान व माली शमसान घाट को शामिल करते हुए मिश्रा वाली ढाणी को दाहिना छोड़ते हुए पुनः उतरी

	सिंगल तक का समस्त बायां क्षेत्र।
२	<p>शहिद स्मारक से पूर्व की तरफ पुरानी जयपुर लोहारू रोड़ पर सड़क-सड़क सहायक अभियन्ता जलदाय विभाग को शामिल करते हुए किसान छात्रावास को दाहिना छोड़ते हुए सड़क-सड़क जीवण खां खोकर की जमीन को दाहिना छोड़ते हुए याकूब तंवर की दुकानो को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर कच्चे रास्ते-रास्ते राधेश्याम पुत्र भोलाराम के मकानो व जांव को शामिल करते हुए वहा से पूर्व की तरफ चलकर सांगानेरिया के कुए को दाहिना छोड़ते हुए भवानी शंकर माली के मकानो को शामिल करते हुए विनोद चेजारा के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए अब्दूल रसिद तंवर के नोहरे को शामिल करते हुए अब्दूल हमीद खत्री के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए रमज्यान अब्दूला खत्री के मकान को शामिल करते हुए गुलाम रसूल, हनीफ खोकर के मकानो को शामिल करते हुए उतर की तरफ युसूफ हनीफ खत्री (सेकेटरी) को दाहिना छोड़ते हुए सिधे चलकर सैयद की दुकान को दाहिना छोड़ते हुए उतर में सीधे चलकर याकुब की दकान के पास सड़क पर वहा से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क नारायाण माहिच के मकान व कुम्हारो की प्याऊ को शामिल करते हुए छोटा बस स्टेण्ड तक वहा से पश्चिम की तरफ पुरानी जयपुर लोहारू सड़क-सड़क कब्रिस्तान को दाहिना छोड़ते हुए केशरदेव चोबदार के जाव तक, जाव को दाहिना छोड़ते हुए वहा से उतर की तरफ हनिफ पुत्र उमरदीन मणीयार बंशीधर सैनी के मकानो को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की तरफ आपणी ढाणी को शामिल करते हुए सड़क-सड़क आमना कॉलोनी को दाहिना छोड़ते हुए न्यू हाईवे रोड़ को क्रोस कर नवलगढ़ प्लाजा को दाहिना छोड़ते हुए राजकीय बस डिपो व राजकीय महाविद्यालय को शामिल कर रास्ते-रास्ते सकरारी गोदाम को दाहिने छोड़ते हुए, श्रीराम मील, विनोद मील, सज्जन मील को शामिल करते हुए पश्चिम सीमा तक वहां से दक्षिण में रेलवे लाईन-लाईन रेलवे फाटक तक वहा से पूर्व दिशा की तरफ बासोतिया मैरिज गार्डन, मुराराका हैलीपैड, न्यू इण्डियन पब्लिक स्कूल को शामिल कर न्यू जयपुर लोहारू रोड़ पर वहा से दक्षिण की तरफ मुड़कर शहिद पार्क का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
३	<p>लक्ष्मणगढ रोड़ पर स्थित रेलवे फाटक के दक्षिण की तरफ रेलवे लाईन-लाईन रेलवे स्टेशन तक वहां से पूर्व दिशा की तरफ सड़क-सड़क प्रेरणा स्कूल, राजपूत छात्रावास को शामिल करते हुए कुलवाल धर्मशाला एवं विद्युत मण्डल कार्यालय को दाहिना छोड़ते हुए हरिराम दरोगा के मकानों को शामिल करते हुए पोदार पैवेलियन को दाहिना छोड़ते हुए सदाफल इन्टरप्राईजेज को शामिल करते हुये चौधरी अस्पताल को दाहिना छोड़ते हुए पोदार सर्किल को बायी ओर शामिल करते हुए गिण्डाराम सैनी के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए केषर देव जांगीड़ की आरा मनीष/मकान को शामिल करते हुए पाटोदिया कोठी को दाहिना छोड़ते हुये सेकसरिया गार्डन के दक्षिणी-पूर्वी कोने तक वहां से उतर दिशा की तरफ कच्चे रास्ते-रास्ते सेकसरिया गार्डन में बसी आबादी को शामिल करते हुये दूरसंचार कार्यालय को दाहिना छोड़ते हुए मोर अस्पताल रोड़ को क्रोस करते हुये श्री चिरंजीलाल सोती के मकानो को शामिल करते हुये किसान छात्रावास को दाहिना छोड़ते हुये सड़क पर वहां से पश्चिम दिशा की तरफ सड़क-सड़क पटवार घर को शामिल करते</p>

	हुए शहिद पार्क को दाहिना छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की तरफ मुरारका हैलीपैड, बासोतिया मैरिज ब्यूरो को दाहिना छोड़ते हुए पुनः रेलवे फाटक तक समस्त बाया क्षेत्र।
४	रेलवे स्टेशन से दक्षिण दिशा की तरफ रेलवे लाईन-लाईन दक्षिणी सिंगल तक वहां से पूर्व दिशा की तरफ कच्चे रास्ते-रास्ते सेठ वाली ढाणी को दाहिना छोड़ते हुए श्री रामावतार, श्री महाविर, श्री कैलाश, श्री मनोहर व श्री सांवरमल/मालाराम माली के मकान/जांव को शामिल करते हुए श्री भोलजी चोबदार का कुआ/जांव को दाहिना छोड़ते हुए बनवारी लाल सैनी के मकानो को शामिल कर जयपुर लोहारू रोड़ पर वहां से कच्चे-कच्चे रास्ते-रास्ते पूर्व दिशा की तरफ श्री पिरामल चेजारा के पत्थर का नोहरा, पेमाराम नाई के मकान/कृषि भूमि, श्री रज्जाक व्यापारी का कुआ/जांव, गणेश माली की दुकान व श्री इश्वर माली के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए घड़ावलियों की कोठी के मकानात शामिल करते हुए उतर दिशा की तरफ चलकर हनुमान कॉलोनी, श्री सत्यनारायण जोशी के मकानात/लोहे का नोहरा शामिल करते हुए पोदार कॉलेज को दाहिना छोड़ते हुए, स्टेशन रोड़ पर वहां से पूर्व दिशा की तरफ सड़क-सड़क श्री भोलराम जी सैनी (नेता) की दुकान के दक्षिणी पश्चमी कोने तक वहां से उतर दिशा की तरफ चलकर श्री षिषराम रणवां की कोठी को शामिल करते हुए जयपुरिया अस्पताल को दाहिना छोड़ते हुए मोर अस्पताल रोड़ पर वहां से पश्चिम दिशा की तरफ सड़क-सड़क सांगानेरियों के जांव को दाहिना छोड़ते हुए दूर संचार कार्यालय, चौथमल जी जांगीड़ के मकानो को शामिल कर सेकसरिया गार्डन के उतरी-पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क सेकसरिया गार्डन में बसी आबादी को दाहिना छोड़ते हुए श्री कन्हैयालाल सेकसरिया के नोहरे में बसी आबादी को शामिल करते हुए स्टेशन रोड़ पर वहां से पश्चिम दिशा की तरफ सड़क सड़क पोदार सर्किल को दाहिना छोड़ते हुए चौधरी अस्पताल, पोदार पैवेलियन, विद्युत मण्डल कार्यालय व श्री हेमराज कुलवाल की धर्मशाला को शामिल करते हुए पुनः रेलवे स्टेशन तक समस्त बाया क्षेत्र।
५	जयपुर लोहारू रोड़ पर कोलीड़ा के रास्ते पर स्थित धर्मकांटे से दक्षिण दिशा की तरफ चलकर दक्षिणी सीमा तक वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर माली आश्रम तक वहां से पूर्व की तरफ वाटर वर्क्स की टंकी को शामिल कर सड़क-सड़क श्री रामोतार सैनी के कारखाने तक वहां से उतर की तरफ चलकर कच्चे रास्ते-रास्ते बजरंगलाल डीडवानियां के नोहरे तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर ओमप्रकाश विकास समिति तक समिति को दाहिना छोड़ते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय गणेशपुरा को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क परसरामपुरिया की पितृ स्थान को दाहिना छोड़ते हुए चन्द्रा पुजारी के बालाजी का मंदिर, ओमप्रकाश चेजारा का मकान व सांवरमल माली के मकानो को शामिल करते हुए वहां से उतर की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते कजोड़ माली के मकान को शामिल करते हुए गणेश माली के मकान/दुकान को दाहिना छोड़ते हुए कोलिड़ा के रास्ते तक वहां से पश्चिम की तरफ कोलिड़ा के रास्ते-रास्ते चलकर जयपुर लोहारू रोड़ पर स्थित धर्मकांटे तक का समस्त बाया क्षेत्र।
६	पोदार कॉलेज के उतरी-पश्चमी कोने से दक्षिण दिशा की तरफ हनुमान कॉलोनी को दाहिना छोड़ते हुए डेरावाली ढाणी को शामिल करते हुए घड़ावलिया की कोठी को दाहिना

	<p>छोड़ते हुए कोलीड़ा के रास्ते पर वहां से पश्चिम की तरफ रास्ते-रास्ते इश्वर माली के गुवाड़ी को शामिल करते हुए गणेश माली के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ गणेश माली के मकान व कुम्हारों के मकानों को शामिल कर वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर सांवरमल माली, ओमप्रकाश चेजारा, चन्द्रा पुजारी के मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए सड़क-सड़क राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ओमप्रकाश के उतरी-पूर्वी कोने तक वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क बिड़दू का कुआं, खेमाराज चोबदार, बालूराम चोबदार, महावीर जी कम्पाउंडर के मकानों को शामिल करते हुए सरावगीयो की बगीची तक वहां से पश्चिम की तरफ कच्चे-कच्चे रास्ते-रास्ते डेराणा के पास इकट्टे गंदे पानी को दाहिना छोड़ते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोचीयान, माणकराम की कोठी के मकानात/जांव को शामिल करते हुए कन्हैयालाल मास्टर के मकान तक वहां से उतर की तरफ रास्ते-रास्ते श्री नारायण दास आयुर्वेदिक औषधालय को शामिल करते हुए महेश पुत्र श्री नागरमल सैनी के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए स्टेशन रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क गोदावरी बाई स्कूल, पोदार कॉलेज के उतरी-पश्चिमी के कोने तक का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
७	<p>पुलिस स्टेशन नवलगढ़ से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क नगरपालिका भवन व गांधी पार्क को दाहिना छोड़ते हुए महर्षि मंगलदत्त आश्रम को व शिव मंदिर को शामिल करते हुए जयपुरिया अस्पताल को दाहिना छोड़ते हुए महेश पुत्र नागरमल माली के मकान के उतरी-पश्चिमी कोने तक वहां से दक्षिण में रास्ते-रास्ते चलकर गोदावरी बाई रामदेव पोदार स्कूल को दाहिना तरफ छोड़ते हुए डेरावाली ढाणी के रास्ते-रास्ते कुए को शामिल करते हुए कन्हैयालाल सैनी के मकान को दाहिना छोड़ते हुए सांवरमल सैनी के मकानों को शामिल करते हुए कोलीड़ा के रास्ते पर वहां से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क माणकराम के कोठी/जांव व राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोचीयान को दाहिना छोड़ते हुए डेराणा के पास इकट्टे गन्दे पानी को, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को शामिल करते हुए सरावगीयो की बगीची को दाहिना छोड़ते हुए बुबनो का कुआ व दयाराम मोची के मकानों को शामिल करते हुए मंगतराम मोची के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए गजानन्द पुरोहित की आटा चक्की को शामिल करते हुए उतर दिशा की तरफ सड़क-सड़क सज्जन सुनार की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए राधाकिषन छावछरियो की हवेली, बुबना का नोहरा शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर शिवकुमार जांगीड़ बंका के मकानों को शामिल करते हुए जगदीष सुनार के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए उतर की तरफ मुड़कर कुआ व शिवमंदिर को शामिल कर राजकीय संस्कृत स्कूल को दाहिना छोड़ते हुए, महावीर प्रसाद खाती, सुआलाल नाई, परसरामपुरिया को नोहरा को शामिल करते हुए रामप्रसाद खाती के मकान व मुराराका कुए को दाहिना छोड़ते हुए स्टेशन रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क गोयनका गेस्ट हाउस, सिनेमा हॉल को शामिल कर पुलिस स्टेशन तक समस्त बाया तक।</p>
८	<p>जयपुरिया अस्पताल के दक्षिणी-पश्चिमी कोने से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क जयपुरिया अस्पताल को शामिल करते हुए गांधी पार्क के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क गांधी पार्क को दाहिना छोड़ते हुए व्यापारियों का कुआ व मुस्लिम</p>

	<p>मदरसे को शामिल करते हुए धागा मील को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर श्री निरंजन चेजारा के मकान तक वहां से उतर की तरफ विश्वनाथ चेजारा, रामेश्वरलाल, सांवरमल जांगीड़, रहमतुल्ला व्यापारी, समदा रहमतुल्ला के मकानों को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ चलकर रसीद पुत्र रमजान के नोहरे को व भंवानी शंकर माली के मकान को दाहिना छोड़ते हुए विनोद चेजारा व सांगानेरिया का कुआ व पूर्णमल चेजारा के मकानों को शामिल करते हुए सड़क-सड़क राधेष्णाम पुत्र भोलाराम माली के जाव तक वहां से उतर की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते राधेष्णाम पुत्र भोलाराम माली के जाव/मकानों को दाहिना छोड़ते हुए आगे सड़क-सड़क याकूब तंवर की दुकानों को दाहिना छोड़ते हुए जीवण खां खोकर की जमीन को शामिल कर वहां से पश्चिम की तरफ पुरानी हाईवे रोड़ पर रोड़-रोड़ किसान छात्रावास को शामिल करते हुए वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क नागरपुरा को दाहिना छोड़ते हुए प्रदीप सिंगोदिया के अस्पताल को शामिल कर पूर्व की तरफ सड़क-सड़क दूर संचार निगम कार्यालय को दाहिना छोड़ते हुए मोर अस्पताल को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर षिषराम रणंवा की कोठी को दाहिना छोड़ते हुए सड़क-सड़क जयपुरिया अस्पताल के दक्षिणी-पश्चमी कोने तक का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
९	<p>गांधी पार्क के दक्षिणी-पश्चमी कोने से पूर्व की ओर गांधी पार्क, नगरपालिका भवन को शामिल कर सिनेमा हॉल, गौयनका गेस्ट हाउस को दाहिना छोड़ते हुए उतर की तरफ अनंतराम पाटोदिया, नथमल चेजारा, कौशलका के मकानों को शामिल कर वहां से पूर्व में सड़क-सड़क कैलाश चोटिया के मकानों को शामिल कर महामाया मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए कुम्हारो, मीणो व गुसाईयों को शामिल करते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर जयपुरिया मंदिर, कुआ, स्वामियों का जांव को दाहिना छोड़ते हुए रोशन नाई, भगवान दास कामड़, हाजी रमजान की हवेली व नोहरे को शामिल करते हुए खातुन दाई के मकानों को छोड़ते हुए समद पुत्र मोहम्मद हुसेन रहमतुल्ला के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ समद हमीद पुत्र मोहम्मद हुसेन रहमतुल्ला, सांवरमल जांगीड़, रामेश्वर चेजारा व विश्वनाथ बैंककर्मों को दाहिने की ओर छोड़ते हुए निरंजन चेजारा तक वहां से पूर्व की ओर मुड़कर मुस्लिम मदरसा को दाहिनी ओर छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ पूर्व पार्श्वद निजामुदीन के मकानों को शामिल कर व्यापारियों के कुएँ को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए गांधी पार्क दक्षिणी-पश्चमी कोने तक का समस्त बायां क्षेत्र।</p>
१०	<p>श्री अंतराम पाटोदिया की हवेली के पूर्व की तरफ महामाया मंदिर की दुकानों को शामिल करते हुए मुरारका हवेली को दाहिना छोड़ते हुए श्री रामावतार चिरानिया की हवेली को सम्मिलित करते हुए ऑरियेन्टल बैंक के कार्यालय को दाहिना छोड़ते हुए चारो हवेलियों को शामिल करते हुए नानसा कुए को दाहिना छोड़ते हुए नानसा गेट में होकर प्रमोद जड़िया के मकान, सेकसरिया बा.उ.मा.वि. को शामिल करते हुए खादी भंडार, सीताराम मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए नाहरसिंह पार्क को शामिल करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ सड़क-सड़क राजेन्द्र खेड़वाल की दुकान से उतर दिशा की तरफ मुड़कर जगदीष सुनार व रामावतार चिरानिया की दुकानों को शामिल करते हुए छोटा गोपीनाथ जी मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में सड़क-सड़क श्री मुरारी लाल इन्दोरिया के</p>

	<p>मकानो को दाहिना छोड़ते हुए जयपुरियो की हवेली (पुरानी) को शामिल करते हुए चांदपोल बालाजी का मंदिर व मंडी गेट में होकर जोषी हाउस, जयपुरियो का मंदिर, स्वामियो का जांव, शनिचर का मंदिर, याकूब तंवर की दुकान को शामिल करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ रास्ते-रास्ते खातुन दांयी के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए युसूफ/हनीफ खत्री(सेकेटरी) के मकान शामिल कर पूर्व दिशा की तरफ रास्ते-रास्ते हाजी रमज्यान का नोहरा/मकान, रोषन नाई के मकान, कुषलदास के मकान को दाहिना छोड़ते हुये स्वामियों के जांव को शामिल करते हुए जाटा वाली कोठ के जांव को दाहिना छोड़ते हुए जयपुरियो का कुआ/मंदिर को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर गुसाईयों के मकान, मीणों के मकान, कुम्हारों के मकान, श्री कैलाष चोटिया की कोठी को दाहिना छोड़ते हुए श्री हजारीलाल कुमावत का गेट हाउस, महामाया का मंदिर, सत्यनारायण नाई के मकान को शामिल करते हुये श्री सुरेश कोषल, श्री नथमल चेजारा के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए अंतराम पाटोदिया की हवेली तक समस्त बायां क्षेत्र।</p>
११	<p>छोटा बस स्टेण्ड से पूर्व दिशा की तरफ सड़क-सड़क शनि मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए जोखीराम जी कुआ/बगीची को शामिल करते हुए जयपुरिया मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए उतर की तरफ शरावगीयो की बगीची व कुआ को दाहिना छोड़ते हुए मकखन जी ब्रहाम्ण, प्यारेलाल जी रूथला के मकानो को शामिल कर दीवाकर जी के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए सज्जन चोटिया के मकान तक वहा से उतर की तफर शंकर जी जोषी का मकान, शंकर जी सेवदा, पुराना सरकारी अस्पताल को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुड़कर जयपुरिया रा.उ.मा.वि. को दाहिना छोड़ते हुए चन्द्रा बलाई के चुन्ने के भट्टे, सुरजा/नानू बलाई के मकानो को शामिल करते हुए पुरानी हाईवे रोड़ पर वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क डॉ. भोलाराम सैनी के क्लिनिक को शामिल करते हुए पुन छोटा बस स्टेण्ड तक का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
१२	<p>लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के सामने सड़क-सड़क पश्चिम की तरफ सार्वजनिक पुस्तकालय तक वहाँ से उतर की तरफ सार्वजनिक पुस्तकालय को दांयी तरफ छोड़ते हुये ठठेरों के मकान तक। वहाँ से पश्चिम की तरफ मुड़कर ठठेरों के मकान, दामोदर जोशी की दुकान व चोबारा को शामिल करते हुये दक्षिण की ओर चलकर मुरारका स्टोर को दांयी तरफ छोड़ते हुये जोशी मेडिकल स्टोर तक, वहाँ से पश्चिम में चलकर लक्ष्मी मेडिकल स्टोर को शामिल करते हुये सड़क-सड़क नाहर सिंह पार्क को दाहिनी ओर छोड़ते हुये, सेकसरिया बालिका सी.सै.स्कूल को दांयी तरफ छोड़ते हुये नानसा गेट में होकर नानसाकुआं तक, वहाँ से सड़क-सड़क पश्चिम की तरफ मुड़कर नानसा कुआ, मुरारका की हवेली को शामिल करते हुये मुरारका कुआ तक। वहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़कर रामप्रसाद जांगिड़ के मकान को शामिल करते हुये हरलालका के कुए को दाहिनी ओर छोड़ते हुये बसन्त लाल सुनार के मकान तक। वहाँ से पूर्व की ओर चलकर शिवकुमार वकील (बंका) के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुये तथा बसन्त लाल सुनार के मकान व केसर देव जांगिड़ के नोहरे को शामिल करते हुये बूबनों के नोहरे तक। वहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़कर राधाकृष्ण छावछरिया की कोठी को दांयी तरफ छोड़ते हुये, सज्जन सोनी के मकान को शामिल करते हुये सड़क पर, वहाँ से पूर्व की तरफ मुड़कर सड़क-</p>

	<p>सड़क सज्जन सोनी, रामाकिशन बेड़िया के मकान को शामिल करते हुये गंगामाई के मंदिर को दाहिनी तरफ छोड़ते हुये, बाहितियों की हवेली के स्थान पर बने कॉम्प्लेक्स तक, वहाँ से पूर्व में बाहितियों की हवेली के स्थान पर बने कॉम्प्लेक्स को छोड़ते हुये, सत्यनारायण जी के मंदिर को शामिल करते हुये छावछरियों के कुएं तक, वहाँ से उतर की तरफ छावछरियों के कुएं व बनवारी पुरोहित के मकान को दाहिनी ओर छोड़ते हुये, बागवाली कुई को शामिल करते हुये, सीकलीगरों के मकान तक। वहाँ से पूर्व की ओर मुड़कर सीकलीगरों के मकान को दाहिनी ओर छोड़ते हुये फिरासो के मकान को शामिल करते हुये उतर की तरफ चलकर जीतू दर्जी के मकान को दांयी ओर छोड़ते हुये मोदी के मकान, राधेश्याम जोशी, पूर्णजी पनवाड़ी को शामिल करते हुये परसरामपुरियों की पुरानी हवेली को दाहिनी ओर छोड़ते हुये आनन्दी लाल सैनी वकील के मकान को शामिल करते हुये, लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी तक का समस्त बांया क्षेत्र।</p>
१३	<p>जयपुरिया मंदिर से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क चलकर मंडी गेट मे से होते हुए बालाजी मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए जयपुरिया की हवेली को शामिल करते हुए व चिंरजीलाल शास्त्री के मकान को व छोटे गोपीनाथ जी के मंदिर को शामिल करते हुए राजू खेडवाल की दुकानो को छोड़ते हुए सड़क पर वहां से पूर्व में चलकर नाहर सिंह पार्क को दाहिना छोड़ते हुए जोषी मेडिकल स्टोर तक वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क बावटी गेट के अन्दर से होते हुए मनोहरदास आश्रम को शामिल कर मोहनलाल बगड़िया की हवेली, बादशाह की हवेली को दाहिना छोड़कर उतर में बालाबक्स बिड़ला की हवेली व रामेश्वर ब्रह्मण के मकान को शामिल कर अशोक बीबासरिया के मकान को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ चैलासी रोड़ क्रोस कर रूथला आई.टी.आई. केन्द्र व नाहर सिंह के शिवालय को दाहिना छोड़ते हुए वीर बालाजी के सामने रोड़ पर वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क सत्य मेडिकोज तक वहां से पूर्व में सड़क-सड़क श्री सतार काजी की कोठी व दुकानो को दाहिना छोड़ते हुए इकबाल हादी खानी के मकानो को शामिल कर दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते कब्रिस्तान को शामिल कर हेमराज कुलवाल की हवेली तक वहां से पश्चिम में कुलवाल होटल को शामिल कर सज्जन चोटिया को दाहिना छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क प्यारेलाल रूथलां के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए वैध दिवाकर के नोहरे, सरावगीयो की बगीची कुआ को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ चलकर जयपुरिया मंदिर तक का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
१४	<p>गंगामाई मंदिर से पश्चिम में सड़क-सड़क मक्खनलाल भाटीवाड़ा, ओमप्राकश दर्जी, मंगतूराम जीनगर के मकानो को शामिल करते हुए दयाराम जीनगर, बुबनो को कुआ को दाहिना छोड़ते हुए सारस्वतो की बगीची तक वहां से दक्षिण की तरफ छोटू धोबी के मकानो को शामिल करते हुए महावीर चोबदार के मकान को दायी तरफ छोड़ते हुए सड़की धोबी के मकान तक वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर नजु दरोगा, इदूखा का नोहरा व मकानो को दायी तरफ छोड़ते हुए सड़क पर वहां से गोपाल व्यायामशाला को शामिल करते हुए टेगौर स्मृति भवन को दायी ओर छोड़ते हुए शनि मंदिर को व डाकोतो की गुवाड़ी को शामिल करते हुए उतर की तरफ रास्ते-रास्ते सेठ गजाधर जयपुरिया की हवेली, मातादीन झुन्झुनवालो की हवेली, पाटोदिया गेस्ट हाउस को शामिल करते हुए</p>

	अरुण डॉक्टर के मकान तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर सड़क पर नगरपालिका के पुराने भवन को शामिल कर बायतियो की हवेली में बने कॉम्पलेक्स को शामिल कर वहा से दक्षिण की तरफ मुड़कर गंगामाई मंदिर के पश्चिमी कोने तक समस्त बायां क्षेत्र।
१५	सदीक धोबी के मकान से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क चलकर खेमराज चोबदार के मकान को छोड़ते हुये केशर देव डिडवानिय के मकान को शामिल करते हुये राजकीय 30प्रा0वि गणेशपुरा को दाहिना छोड़ते हुये गणेश पुरा विकास समिति भवन को शामिल कर वहां से रास्ते-रास्ते श्री रामलाल पटवारी के बाड़े को दाहिना छोड़ते हुए खांगा चमार, कुम्हारों की गुवाड़ी एवं नटो की गुवाड़ी को शामिल कर उदयपुरवाटी रोड़ पर वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क बस स्टेण्ड को दाहिना छोड़ते हुए झुन्झुनूवाला का नोहरा, नगरपालिका क्रिडागण स्थल, टैगोर स्मृति भवन को शामिल करते हुए रामदेवजी के गेट तक वहां से पश्चिम की तरफ रास्ते-रास्ते रामदेव जी मंदिर व गोपाल व्यायामशाला को दाहिना छोड़ते हुए नगरपालिका क्रिडागण के उतरी-पश्चिमी कोने तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर ईदु खां का नोहरा, धोबियों के मकान शामिल कर मस्जिद को दाहिना छोड़ते हुये दरोगो की गुवाड़ी को शामिल करते हुये वहां से पुनः सदीक धोबी के मकान का समस्त बायां क्षेत्र।
१६	श्री रामलाल मुरारी के बाड़े से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क श्री बजरंग लाल डिडवानिया के नोहरे तक वहां से दक्षिण की तरफ मुड़कर नोहरे को दाहिना छोड़ते हुये कच्चे रास्ते-रास्ते रामावतार सैनी के कारखाने को दाहिना छोड़ते हुये उदयपुरवाटी रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क वाटर वर्क्स की टंकी तक वहां से दक्षिण की तरफ मोचियों के मन्दिर की कृषि भूमि को शामिल करते हुये नगरपालिका की दक्षिणी सीमा तक वहां से पूर्व में सीमा-सीमा खातियों की कोठी जांव/ढाणी राजकीय प्रा.वि. सफीक मोहम्मद दायरे वाले का खेत हनुमान स्वामी का जांव, रफयुदीन लौहार, नजीर पिनारा की कृषि भूमि को शामिल करते हुये बेरी रोड़ पर वहां से पूर्व में तरफ सड़क-सड़क महावीर खटीकों की कृषि भूमि एस.एन.विद्यालय का खेल मैदान भगत खटीक, रसीद व्यापारी के मकानों को शामिल करते हुये दक्षिण की तरफ मुड़कर धन्ना रैगर की गुवाड़ी को छोड़ते हुये पश्चिम की तरफ मुड़कर दीपचन्द पंवार की गुवाड़ी को शामिल कर राजकीय उ.प्रा.वि हरिजन नई को दाहिना छोड़ते हुये उदयपुरवाटी रोड़ पर वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क नटो के मकान तक वहां से पश्चिम में सड़क-सड़क नटो के मकान, कुम्हारों के मकान, खांगा चमार व जगदीश बागवान के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए रामलाल पटवारी के बाड़े तक का समस्त बायां क्षेत्र।
१७	भगवानदास झुन्झुनूवालो की हवेली के उतरी-पश्चिमी कोने से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क उदयपुरवाटी बस स्टेण्ड व हरिजन मोहल्ले को शामिल करते हुए श्री राम हरिजन की कास्त की भूमि तक वहा से पूर्व की तरफ मुड़कर हरिजन कुए व राजकीय प्रा.वि. हरिजन मोहल्ला को शामिल करते हुए श्री दीपचन्द पंवार, मास्टर के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए कच्चे रास्ते-रास्ते धन्ना रैगर के मकानो को शामिल करते हुए उतर की तरफ मुड़कर श्री नवलगढ़ विधालय के खेल मैदान रसीद व्यापारी के मकानो को दाहिना

	छोड़ते हुए त्यागीराम जी की बगीची को शामिल करते हुए नायको के मोहल्ले को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर भगवान दास झुन्झुनूवालो की हवेली को शामिल करते हुए उतरी-पश्चिमी कोने तक का समस्त बाया क्षेत्र।
१८	भान जी घोड़ेला के उतरी-पश्चिमी कोने से दक्षिणी दिशा की तरफ सड़क-सड़क सूर्यमण्डल खेल ग्राउण्ड को दाहिना छोड़ते हुए चिरंजीलाल झुन्झुनूवालो की कोठी तक वहां से पूर्व में सड़क-सड़क भगवान दास की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए, चन्द्रभान घड़सीराम नायक को शामिल करते हुए दक्षिण में त्यागीराम जी बगीची को दाहिना छोड़ते हुए शकूल चौहान को शामिल करते हुए वहां से उतर दिशा में मुड़कर सड़क-सड़क बड़ का पेड़ व शिव मंदिर को शामिल कर वहां से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर चांद खां के मकान को दाहिनी ओर छोड़ते हुए वहां से उतर दिशा की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते दारुगरों की धर्मशाला को शामिल करते हुए वहां से पश्चिम की ओर चल कर रास्ते-रास्ते मस्जिद व कुए को शामिल कर पार्क को दाहिना छोड़ते हुए उतर दिशा की तरफ चलकर और खाली प्लॉट तक वहां से पश्चिम की तरफ रास्ते-रास्ते चलकर मंजूर अहमद पुत्र मोला बक्स के मकान को शामिल कर उतर दिशा की तरफ ईलाई मदरसे को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर खाकीजी के मंदिर को शामिल कर भान जी घोड़ेला के नोहरे तक का समस्त बाया क्षेत्र।
१९	श्री चिरंजीलाल नाय के मकान को शामिल कर दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते नायको की बगीची को शामिल करते हुए एस.एन. विद्यालय खेल के मैदान को दाहिना छोड़ते हुए मस्जिद को शामिल कर उदयपुरवाटी रोड़ को क्रॉस कर निजामुदीन पिनारा की कास्त की भूमि को दाहिना छोड़ते हुए नगरपालिका की दक्षिणी सीमा तक वहां से पूर्व में सीमा-सीमा कुम्हारों की गुवाड़ियों को व न्यू शेखावाटी शिक्षण संस्थान, धर्मकांटा गोवर्धन नाथ का धून्ना शामिल कर उतर की तरफ चलकर पुन उदयपुरवाटी रोड़ को क्रॉस करते हुए नत्थू खटिक के मकानों को व गायत्री स्कूल के पूराने भवन को दाहिना छोड़ते हुए गायत्री स्कूल के नये भवन को शामिल करते हुए हंसराज कबाड़ी के नोहरे को शामिल कर, खटिकान कुए को शामिल कर राजकीय उ.प्रा.वि. खटिकान को दाहिना छोड़ते हुए चावला एस.टी.डी. को शामिल करते हुए लालचन्द खटिक के मकानों को शामिल करते हुए आलम खुर्शिद, सफी दायरे वाले के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर शिव मंदिर व बड़ के पेड़ को दाहिना छोड़ते हुए चिरंजीलाल नायक के मकान तक का समस्त बाया क्षेत्र।
२०	दारुगरों की धर्मशाला के उतरी-पूर्वी कोने से दक्षिण की तरफ हाजी सफी व खुर्शिद के मकानों को शामिल करते हुये आलम खुर्शिद चौहान के मकानों को दाहिना छोड़ते हुये पूर्व की तरफ चलकर बोदू नायक के मकानों को दाहिना छोड़ते हुये गफूर/लाला गौरी के मकान, हनीफ पिनारा का मकान शामिल कर लालचन्द खटिक के मकानों को दाहिना छोड़ते हुये बाबूलाल, बनवारीलाल/श्रवण कुमार खटिक के मकानों को शामिल कर हीरालाल, झुंथाराम खटिक के मकानों को दाहिना छोड़ते हुये ज्योति बाल विद्यापीठ मा.वि. को शामिल कर पूर्व की तरफ चांवला एस.टी.डी. की दुकान को दाहिना छोड़ते हुये दक्षिण में भागाराम, बाबूलाल, पूर्णमल चांवला के मकानों को दाहिना छोड़ते हुये

	<p>मानाराम, अमराराम खटीक व रा.उ.प्रा.वि. खटीकान स्कूल को शामिल कर खटीकान कुआ व हंसराज कबाड़ी के बाड़े को तथा नत्थूराम के मकान को शामिल कर गायत्री विद्यापीठ स्कूल के पुराने भवन को शामिल कर गौरखनाथ के धुणे को दाहिना छोड़ते हुये दक्षिणी सीमा तक वहां से पूर्व की तरफ सीमा-सीमा उदयपुरवाटी रोड़ पर वहां से उतर में सड़क-सड़क कब्रिस्तान/गौशाला को शामिल करते हुये सांसियों के मकानों, रा.उ.प्रा.वि. गौशाला को दाहिना छोड़ते हुये गिरधारी खटीक के मकान तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते रामकुमार महाब्राह्मण को दाहिना छोड़ते हुये वहां से उतर की तरफ मंगतू खटीक, नत्थू खटीक, मोठू खटीक को शामिल कर कब्रिस्तान को दाहिना छोड़ते हुये पुनः दक्षिण की तरफ चलकर दारूगरों की धर्मशाला के उतरी-पूर्वी कोने तक समस्त बांया क्षेत्र।</p>
२१	<p>राजकीय उ.प्रा.वि. गौशाला से दक्षिण में सड़क-सड़क सांसियों की गुवाड़ी को शामिल करते हुए गौशाला एवं कब्रिस्तान को दाहिना छोड़ते हुए नगर पालिका की दक्षिणी सीमा तक वहां से पूर्व के सीमा-सीमा श्री सांवरमल जी चोटिया की कृषि भूमि मदनलाल धरनीधर का कुआ व जांव को शामिल कर उतर में सीमा-सीमा झरड़ावाली ढाणी को दाहिना छोड़ते हुए श्री सांवरमल चोटिया की कृषि भूमि व मकान, रूडामिश्रा की ढाणी, गिरधारी वाली ढाणी को शामिल कर पश्चिम में लोहार्गल वाली ढाणी को दाहिना छोड़ते हुए सीधे छतरियां वाली ढाणी के मकखन पुत्र प्रभूदयाल के मकानो को शामिल करते हुए चोबदारों के शमशान घाट, मोहम्मद युसूफ जिन्दरान के मकान को दाहिना छोड़ते हुए वहां से दक्षिण में चलकर खालिद लंगा व इसाक खोकर के मकानो को छोड़ते हुए वहां से पश्चिम में रास्ते-रास्ते चलकर अजीज बड़गुर्जर को छोड़ते हुए सीधे गौशाला रोड़ पर वहा दक्षिण में रास्ते-रास्ते महावीर चायवाले की दूकान को शामिल कर गौशाला को दाहिना छोड़ते हुए कांती कोठी के मकानो को शामिल कर गौशाला स्कूल तक का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
२२	<p>मुन्शी अहमद लोहार से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते युसुफ सुभान चोबदार के मकान को दाहिना छोड़ते हुए कब्रिस्तान को शामिल करते हुए बनवारीलाल के मकान को शामिल कर वहां से पूर्व में शांति किन्नर के मकान तक वहां से दक्षिण में पाटोदिया के शमशान में रामकुमार महाब्रह्मण को शामिल कर पूर्व में गौशाला के रास्ते-रास्ते उम्मेद अली बेहलीम के नोहरे तक वहां से उतर में चलकर रास्ते-रास्ते बद्रुदीन टेलर के मकान तक वहां से पूर्व में मुड़कर सुण्डाराम जी की बगीची व बाबूलाल चोबदार के मकान को शामिल कर उतर की तरफ चलकर खुदा बक्स ट्रक वाले के मकान को दाहिना तरफ छोड़कर पूर्व की तरफ चलकर यासीन बड़गुर्जर के नोहरे को शामिल करते हुए आमीन खत्री के मकान को शामिल करते हुए फादूखां अजीमुदीन के मकान को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते गुलाब चाबी वाले के मकान को शामिल कर पश्चिम की तरफ इलियास के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए गफूर बेहलिम की कोठी तक वहां से उतर में चलकर लाला महीम कबाड़ी के नोहरे को शामिल कर पश्चिम में रास्ते-रास्ते गन्दे पानी को शामिल कर गन्दे पानी के उतरी-पश्चिमी कोने तक वहां से उतर की रास्ते-रास्ते अब्दूल जब्बार की हवेली तक वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क मुन्शी अहमद लोहार तक</p>

	का समस्त बायां क्षेत्र।
२३	मुन्शी/अहमद लुहार के नोहरे के सामने से दक्षिण में खाकी जी के मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए हाजी करीम चोबदार के मकानो को शामिल करते हुए पूर्व में पार्क को शामिल कर दारूगरियों की धर्मशाला को दाहिना छोड़ते हुए व मस्जिद को दाहिना छोड़ते हुए बनवारी लाल के मकान तक वहां से उतर में बनवारीलाल के मकान कब्रिस्तान को दाहिना छोड़ते हुए युसूफ सुभान चोबदार के मकान तक वहां से पश्चिम में चलकर रास्ते-रास्ते मुन्शी अब्दूल लुहार के मकान/नोहरे तक का समस्त बायां क्षेत्र।
२४	प्रमोद शर्मा मकान से दक्षिण की तरफ चलकर डॉ. अरुण शर्मा मकान को दाहिना छोड़ते हुए बुबनों की हवेली को शामिल करते हुए पाटोदिया गेस्ट हाउस, मातादीन झुन्झुनूवालो की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए पाटोदिया का कुआ/जांव को शामिल करते हुए युनुस लोहार के पत्थर के नोहरे के दक्षिणी-पश्चिमी कोने तक वहां से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क हाजी इदू खान चोबदार के मकान, हाजी सदीक दारूगर की बैठक को दाहिना छोड़ते हुए जब्बार चोबदार के मकान को दाहिना छोड़ते हुए वहां से दक्षिण में सड़क-सड़क चलकर श्री महावीर प्रसाद परसरामपुरिया की हवेली, उम्मेद अली बेहलीम की हवेली, पीरामल खटीक के पुराने मकानो को शामिल करते हुए नगर पालिका द्वारा निर्मित गंदे पानी के होद तक वहां से उतर में सड़क-सड़क गन्दे पानी के होद व बकरा मंडी को दाहिना छोड़ते हुए रामरिख परसरामपुरिया के बाग वाले नोहरे को शामिल करते हुए जमाल चौधरी की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए श्री बजरंगलाल जांगीड़ के कारखाने को शामिल करते हुए बड़ी मस्जिद को दाहिना छोड़ते हुए वहां से पश्चिम को शामिल करते हुए वहां से उतर की तरफ घूमकर श्री बनवारीलालजी परसरामपुरिया की हवेली को शामिल श्री किशोर पण्डा, मिश्रो की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए मघराज पाटोदिया की हवेली को शामिल करते हुए श्री रामावतार नाई के मकान से पश्चिम में मुड़कर फ्रांसो के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए श्री रामावतार नाई मालीराम बघेरिया, लालचन्द दर्जी, राधेश्याम शाह, लालचन्द सिकलीगर के मकानो को शामिल करते हुए बाग वाली कुई को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ घूमकर बनावारी लाल पुरोहित के मकान को शामिल करते हुए छावछरियों की धर्मशाला को दाहिना छोड़ते हुए कुआ मंदिर को शामिल करते हुए पश्चिम में मुड़कर सड़क-सड़क प्रमोद शर्मा के मकान तक का समस्त बायां क्षेत्र।
२५	पोदार गेट बालाजी मंदिर से पश्चिम में सड़क-सड़क पोदार गेट मे से होकर श्री लक्ष्मी टेडिंग एजेन्सी तक वहां से दक्षिण में चलकर श्री कैलाश चोटिया की दूकान को शामिल कर श्री अर्जुनलाल एडवोकेट की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए परसरामपुरिया की पुरानी हवेली को शामिल करते हुए राधेश्याम जोशी के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए जीतमल दर्जी की हवेली को शामिल करते हुए मोदी व फ्रांसो के मकानो को दाहिना तरफ छोड़ते हुए सत्यनारायण जोशी, विघुत सब स्टेशन को शामिल करते हुए श्री मघराज पाटोदिया की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए, आनन्द राम परसरामपुरिया की हवेली को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते बड़ी मस्जिद वहां से उतर मे मुड़कर बड़ी मस्जिद, पाटोदिया की छतरी, राणी सती बालीका विद्यालय को दाहिना छोड़ते हुए मोहनलाल सहाय चेजारो का बालाजी का मंदिर, श्री सीताराम जखनाडिया की हवेली

	शामिल करते हुए चूणा में से होकर बड़े पोस्ट ऑफिस दाहिना छोड़ते हुए पुन बालाजी मंदिर पोदार गेट तक का समस्त बाया क्षेत्र।
२६	कल्लू कुम्हार के मकान से दक्षिण की ओर चलकर चेजारो के मन्दिर को दाहिना छोड़ते हुए पाटोदियो की छतरी व्यापारियों की मस्जिद को शामिल करते हुए गन्नी तेली के मकान तक वहां से पूर्व की तरफ चलकर जमाल चौधरी की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए हरजीराम चेजारा, हजारीलाल चेजारा, कालूराम कुम्हार की पुरानी हवेली, मुस्लिम मदरसा को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते अब्दूल बहाव के मकान तक वहा से उतर में रास्ते-रास्ते आनन्द खटिक के मकान तक रामचन्द्र कुमावत के मकान को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर रास्ते-रास्ते सफी भड़भूज्या के मकान तक वहां से उतर की तरफ मुड़कर सफी भड़भूज्या, हबीब खिरोडिया के मकान को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ चलकर जमाल रहमतुल्ला मुस्लिम मदरसा फतेह मोहम्मद के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए गंगाराम मास्टर के मकानों को शामिल करते हुए कलूराम कुम्हार तक का समस्त बायां क्षेत्र।
२७	जमाल चौधरी की हवेली से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते मजीद व्यापारी के मकान तक वहां से पूर्व की तरफ मुड़कर लालम हुसैन/सिराजुदीन को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मुड़कर बकरा मंडी को दाहिना छोड़ते हुए हाजी नजीर व्यापारी की पुरानी हवेली को शामिल करते हुए कालु दिना खोकर के मकान तक वहां से उतर मे माधास जी रोड़-रोड़ आमीन कबूतर वाले के मकान को छोड़ते हुए रोड़-रोड़ सदीक नेता के नोहरे को शामिल कर उतर के रास्ते-रास्ते रामदेवरा चेजारा तक वहां से पश्चिम में मुड़कर बाबुलाल वकील के घर को शामिल कर जमाल चौधरी के हवेली तक का समस्त बाया क्षेत्र।
२८	लायक हुसैन पुत्र सिराजु के मकान से पूर्वी रास्ते में सड़क-सड़क शकुर के मकान तक वहा से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते बकरा मंडी को शामिल कर हाजी नजीर व्यापारी की पुरानी हवेली को छोड़ते हुए उसके पास से सकड़ी वाली गली में पूर्व की तरफ चलकर असकर व फतेह मोहम्मद के मकान को शामिल कर सकड़े रास्ते से पूर्व की तरफ हाजी हनीफ के मकान को शामिल कर मजिद काहर खोखर तक वहां से दक्षिण में चलकर मुस्ताक लंगा के मकान को छोड़ते हुए उसके पास से पूर्व की तरफ जाने वाले रास्ते-रास्ते चलकर अब्दूल करीम जिन्दरान को शामिल कर मजिद शौकत के मकान तक वहा अली मोहम्मद लंगा व इसाक जिन्दरान के मकान को छोड़ते हुए रास्ते-रास्ते नजरुदीन जिन्दरान को शामिल कर रास्ते-रास्ते दक्षिण में चलते हुए लियाकत स्कूल जिन्दरान तक व वहां से पश्चिम में रास्ते-रास्ते चलकर इलियास उपाध्यक्ष के मकान को शामिल कर गुलाब चाबी वाले के मकान को छोड़ते हुए मकील बड़गुर्जर के नोहरे को शामिल करते हुए उतर में चलकर भगतसिंह दायम के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर सदिक खत्री इशाक खोकर के मकानों को शामिल कर सदीक कबाड़ी के नोहरे को छोड़ते हुए वहां से उतर की तरफ रास्ते-रास्ते आमीन चाय वाला की दुकान को शामिल कर रास्ते-रास्ते बकरा मंडी को शामिल कर लायक हुसैन के मकान तक के समस्त क्षेत्र।

२९	श्री कासम खान पुत्र श्री हाजी भादा लंगा के दूकान वाले नोहरे से दक्षिण की तरफ श्री राम चेजारा के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए अहमद चोबदार इकबाल चोबदार यासीन के मकान व मोहम्मद आरीफ पुत्र आमीन के मकान को शामिल कर पूर्व की तरफ मुड़कर गुलाब नबी लंगा, अब्दूल रहमान लंगा को दाहिना छोड़ते हुए मकबूल व्यापारी, अब्दूल शकूर जिन्दरान अनवर पुत्र शकूर जिन्दरान के मकान तक वहां से उतर की तरफ मुड़कर हनीफ पुत्र फतेह मोहम्मद के नोहरे को शामिल कर पूर्व की तरफ रास्ते-रास्ते मो. आबिद पुत्र लियाकत को शामिल कर उतर की तरफ मुड़कर रफीक पुत्र मकबूल, फारूक पुत्र यासीन को दाहिना छोड़ते हुए हाजी निजामुद्दीन के एक नोहरे को शामिल कर बिरोल के रास्ते पर वहां से पूर्व की तरफ रास्ते-रास्ते सफी काजी की दुकान तक वहां से उतर की तरफ पानी की टंकी की दाहिना छोड़ते हुए मजिद पुत्र अब्दूल करीम के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते खटीको की बगीची को दाहिना छोड़ते हुए रास्ते-रास्ते रामचन्द्र कुमावत के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर रास्ते-रास्ते युसुफ तंवर के मकान को शामिल कर अब्दूल बहाव के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम में मुड़कर रास्ते-रास्ते श्री कासम खान पुत्र हाजी भादा लंगा के दूकान तक का समस्त बाया क्षेत्र।
३०	फतेह मो. जिन्दरान के मकान से पूर्व की तरफ रास्ते-रास्ते गढवाली को शामिल कर अली मोहम्मद पुत्र हबीब लंगा की आटा चक्की को शामिल कर वहां से दक्षिण की मुड़कर रास्ते गुलाब चाबी वाले को दाहिना छोड़ते हुए कांती कोठी के रास्ते-रास्ते सदीक खत्री के मकान तक वहां से पश्चिम में मुड़कर रास्ते-रास्ते खुदाबक्स ट्रक वाले तक वहां से दक्षिण में रास्ते-रास्ते अजीज बड़गुर्जर तक वहां से पूर्व में रास्ते-रास्ते इकबाल खोकर के मकान को शामिल कर वहां से उतर में मुड़कर खालीद लंगा, युसुफ जिन्दरान चोबदारों का शमशान घाट को शामिल कर व यासीन पुत्र वीरू के मकानों को शामिल करते हुए रास्ते-रास्ते श्रीराज लंगा, गुलाब नबी लंगा के मकान को शामिल कर अब्दूल रजाक पुत्र हाजी भादा की दूकान तक वहां से पश्चिम में रास्ते-रास्ते आमीन कबूतर को शामिल इकबाल की दूकानों की गली को छोड़ते हुए आगे रास्ते-रास्ते फतेह मोहम्मद जिन्दरान के मकान तक का समस्त बाया क्षेत्र।
३१	श्री शौकत पुत्र यासीन जिन्दरान के मकान से पश्चिम की ओर हनीफ पुत्र फतेह मोहम्मद को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ अनवर जिन्दरान के मकान को दाहिना छोड़ते हुए पूर्व में चलकर चोबदारों के शमशान घाट को दाहिना छोड़ते हुए लियाकत पुत्र फतेह मोहम्मद जिन्दरान को बायी ओर शामिल करते हुए छतरियों वाली कोठी जांव व खुली जमीन गिरधारी वाली कोठी को दाहिना छोड़ते हुए लोहार्गल वाली ढाणी को शामिल कर पूर्वी सीमा तक वहां से उतर की तरफ सीमा-सीमा डंगाचियों के कुए, पीरोतो की ढाणी को शामिल करते हुए श्री रामेश्वर रेगर व गोकूलचन्द सैनी के चुन्ने के भट्टे को शामिल करते हुए बिरोल को जाने वाली डामर रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क रघुनाथ वाली ढाणी को दाहिना छोड़ते हुए हाजी रहमतुल्ला के मकान व नोहरे को बायी तरफ शामिल करते हुए भगवाना राम पुत्र गोपाल राम रैगर के मकान व दुकानो को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ मदिना मस्जिद को दाहिनी तरफ

	छोड़ते हुए रास्ते पर वहां से पश्चिम की तरफ रास्ते-रास्ते मजिद/अब्दूल जिन्दरान के नोहरे को शामिल कर गुलाम रसूल/हाजी अब्दूल कादर के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ पानी को टंकी को शामिल कर मो. सफीम गाजी की दुकान तक वहां से पश्चिम की तरफ हाजी निजामुद्दीन के नोहरे को बायीं तरफ शामिल कर दक्षिण में रफिक/मकबूल जिन्दरान, फारूक/यासीन जिन्दरान, मो. आबीद/लियाकत जिन्दरान के मकान को दाहिना छोड़ते हुए शौकत/यासीन जिन्दरान के मकान तक का समस्त बाया क्षेत्र।
32	श्री मालाराम खटीक की पुरानी हवेली से दक्षिण की तरफ चलकर मो. काजी के मकानों को शामिल कर जगदीश के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुये लादू खटीक के मकानों को शामिल करते हुये रामनिवास चेजारा के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुये वहां से पूर्व की तरफ श्री वासूदेव मिश्र की पट्टाशुद्धा भूमि में बसी आबादी को शामिल करते हुये मो. अयूब जिन्दरान के मकान तक वहां से उतर की तरफ मस्जिद, न्यू गोल्डन गारमेन्ट की दुकान को शामिल कर बिरोल रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क राजकीय उ.प्रा.बा.वि. रैगरान अम्बेडकर पार्क को शामिल करते हुये पुनः मालाराम खटीक के मकान तक समस्त बाया क्षेत्र।
33	खाजु खां कलाल के मकानों से दक्षिण में चलकर रामु खटीक के मकान शामिल कर पूर्व में सड़क-सड़क ज्ञानचन्द सोकरिया के मकान शामिल कर उतर में चलकर कन्हैयालाल मास्टर, रामेश्वर लाल तुलगरिया के मकान व माली राम नोहरे को शामिल कर रा.उ.प्रा.वि हरिजन बस्ती पुरानी को दाहिना छोड़ते हुये ठाकुर बांघसिंह जी जोहड़ के मैन गेट तक वहां से पश्चिम चलकर पूर्णमल मास्टर, सुभा बुनकर, बाबूलाल मेघवाल के मकान को शामिल कर रामावतार चेजारा के मकानों दाहिना छोड़ते हुये पुन खाजु खां कलाल के मकान तक का समस्त बाया क्षेत्र।
34	राणी सती माध्यमिक विद्यालय उतरी-पश्चिमी कोने से दक्षिण की तरफ विश्वकर्मा घोड़ेला की हवेली को शामिल करते हुए वहां से पूर्व में मुड़कर गंगाराम चेजारा के मकान को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए, हबीब खिरोड़िया के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ मुड़कर हाजी सफी भड़बुज्या को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ सड़क-सड़क खटिको की बगीची को शामिल करते हुए उतर की तरफ मुड़कर बाबूलाल खटिक की नई कोठी को शामिल करते हुए बिरोल रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क मानसिंह स्कूल को दाहिना छोड़ते हुए चूणा चौक में वहां से दक्षिण में मुड़कर राणी सती मंदिर को शामिल कर राणी सती माध्यमिक विद्यालय उतरी-पश्चिमी कोने तक का समस्त बाया क्षेत्र।
35	नवयुवक मण्डल के खेल मैदान से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क श्री ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद के नोहरे तक वहां से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते श्री महावीर चिरानिया की तेल मील, विश्व भारती शिक्षण को दाहिना छोड़ते हुए मंगल चेजारा की हवेली धर्मशाला पानी की कुआ टंकी को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर कजोड़ बारी के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर मानसिंह के नोहरे का दाहिना छोड़ते हुए चूणा चौक में वहां

	से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क रामू खटीक के मकान तक वहां से उतर की तरफ बनारसी देवी पत्नी महावीर प्रसाद चेजारा द्वारा निर्मित सड़क-सड़क चलकर श्री रामू खटीक, खाजू खां का मकान, बनारसी देवी का मकान, मोहनलाल मास्टर के मकान को दाहिनी तरफ छोड़ते हुए मदन कुम्हार के मकान को सम्मिलित करते हुए नवयुवक मण्डल खेल के मैदान के पास सड़क पर समस्त बाया क्षेत्र।
३६	चौखानी आईस फैक्ट्री से दक्षिण की तरफ रोड़-रोड़ पोदार गेट बालाजी मंदिर को दाहिना छोड़ते हुए बड़े पोस्ट ऑफिस को शामिल कर चूणा चौक में राणी सती मंदिर व पाटोदिया की छतरी को दाहिना छोड़ते हुए उतर की तरफ सड़क-सड़क मानसिंह के नोहरे तक वहां से पूर्व की तरफ कजोड़ बारी के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए कबीर चेजारा के मकानो को शामिल करते हुए बट्टी प्रसाद चेजारा के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए मंगल चेजारा टंकी वाले के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए वहां से उतर की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते बलाईयों के मोहल्ले को दाहिना छोड़ते हुए विश्व भारती शिक्षण संस्थान, महावीर चिरानिया की ऑयल मील को शामिल करते हुए कोठी रोड़ पर वहां से पश्चिम में गुलाठी क्लिनिक को शामिल कर रोड़-रोड़ बनवारी लाल पुत्र कजोड़मल माली चुन्ने भट्टे का नोहरा, मकखनलाल ब्रहाम्ण की दुकानो को शामिल कर उतर की तरफ रास्ते-रास्ते सदिक छिपा, बाबूलाल मणियार के मकान/दुकान जिकरूदीन बिसायती के मकान शामिल कर रामेश्वर नाई के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए पश्चिम की तरफ मुड़कर मुनान बिसायती, अजीज बिसायती, दुर्गा प्रसाद जी मास्टर के मकानों को शामिल कर राजू कोलसिया वाले की कोठी को शामिल करते हुए दक्षिण में रास्ते-रास्ते भगतो की हवेलियों को, चौखानीयों का कुआ, घेर का मंदिर शामिल कर पुन चौखानी आईस फैक्ट्री तक का समस्त बायां क्षेत्र।
३७	रूपनिवास कोठी पर श्री काशीजी पाटोदिया के नोहरे से पूर्व में चलकर ऑयल मील, पानी की टंकी शामिल कर टीला की बगीची तक वहां से उतर में मुड़कर मुला चेजारा का मकान, कुम्हारो की धर्मशाला को दाहिना छोड़कर श्री पोकर कुम्हार, हनुमान कुम्हार के मकानो को शामिल कर पश्चिम की तरफ मुड़कर इलायची बिसायती के घर तक वहां से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते धाबाईयों की गुवाड़ी शामिल कर रूगजी दरोगा की गुवाड़ी तक वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते रामेश्वर नाई के मकानों को शामिल कर दक्षिण की तरफ मुड़कर भोला मणियार के मकानो को शामिल कर सदिक छिपा के मकानो को दाहिना छोड़ते हुए काशी पाटोदिया के नोहरे तक का समस्त बायां क्षेत्र।
३८	रूप निवास कोठी के सामने से पश्चिम की तरफ सड़क-सड़क नवयुवक मण्डल के खेल मैदान को शामिल कर दक्षिण की तरफ बनारसी देवी रोड़-रोड़ श्री मोहनलाल मास्टर के मकान, बनारसी देवी के मकान व रामोतार चेजारा के मकान को शामिल कर पूर्व की तरफ रास्ते-रास्ते ठाकुर साहब बाद्य सिंह के जोहड़ तक वहां से दक्षिण की तरफ चलकर श्री जगदीश प्रसाद पुत्र सांवरमल बलाई के मकान को छोड़ते हुए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिव मंदिर, सामुदायिक भवन को शामिल कर रास्ते-रास्ते कन्हैयालाल मास्टर के मकानों को छोड़ते हुए श्री जगदीश प्रसाद पुत्र गणपतराम रैगर के मकानों को शामिल कर बिरोल रोड़ पर वहां से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क प्रहलाद

	<p>रैगर के मकानों को शामिल करते हुए ढाणी रूगनाथ वाली को शामिल कर पूर्वी सीमा तक वहां से उतर की तरफ पालिका की सीमा-सीमा ठाकुर साहब बाद्यसिंह जी का जोहड़ की कृषि भूमि, कोठी रूप निवास की कृषि भूमि को शामिल कर बड़वासी रोड़ पर वहां से पश्चिम की तरफ मुड़कर श्री बालू कुम्हार के मकान व भगत जोहड़ की भूमि को दाहिना छोड़ते हुए रूप निवास कोठी के जांव में बसी आबादी एवं बनी दुकानों को शामिल करते हुए पुन कोठी रूप निवास के सामने तक समस्त बायां क्षेत्र।</p>
३९	<p>कोठी रूप निवास के सामने से छोटू जी मिस्त्री के नोहरे से पूर्व की तरफ सड़क-सड़क चलकर कोठी रूपनिवास से दाहिना छोड़ते हुए बालू कुम्हार के मकानों को शामिल कर पूर्वी सीमा तक वहां से उतर की तरफ सीमा-सीमा मिश्रावाली कोठी को शामिल कर उतरी सीमा तक वहां से पश्चिम की तरफ सीमा-सीमा भगत सिंह जोहड़, नवोड़ी कोठी मातकावाली कोठी दरोगा वाली कोठी को शामिल कर नदीपुरा में बसी आबादी व शंकर जी सुरोलिया के प्लाटो को दाहिना छोड़ते हुए वहां से दक्षिण की तरफ चलकर रास्ते-रास्ते बिड़लो वाले कुए को शामिल व जगुका वाली ढाणी के कुए को शामिल करते हुए पूर्व की तरफ आबादी को दाहिना छोड़ते हुए बड़गरा तक वहां से दक्षिण की तरफ मुड़कर जिनुदीन काजी के मकान, बिसन भाट के मकान को शामिल कर सिंगोदिया भवन को दाहिना छोड़ते हुए बरगद लीलगर के मकान को शामिल करते हुए दक्षिण की तरफ मदन भूरा लीलगर को शामिल कर पूर्व में गोमजी लाट के धुन्ने के शामिल कर बिसातियों की मस्जिद को दाहिना छोड़ते हुए बलु खान जाटव के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ हुसैन खान, कासम युसुफ के मकान को दाहिना छोड़ते हुए दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते चलकर हारून काजी की चक्की को शामिल करते हुए सलाउदीन बिसायती के मकान को शामिल कर वहां से पूर्व में रास्ते-रास्ते इलाचयी के मकानात को दाहिना छोड़ते हुए कुम्हारों की चक्की को शामिल करते हुए रामेश्वर कुम्हार के बाड़े तक दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते रामेश्वर पोकर कुम्हार के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए कुम्हारों के मकान की एक पट्टी व धर्मशाला को शामिल करते हुए टिला की बगीची को दाहिना छोड़ते हुए कोठी रोड़ पर से पूर्व की तरफ रोड़-रोड़ छोटू जी मिस्त्री के नोहरे तक का समस्त बायां क्षेत्र।</p>
४०	<p>बिसायती मोहल्ले में श्री इस्माईल पुत्र महमदा लिलगर (पूर्व पार्श्व) के घर से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क मघजी बागवान के मकान को शामिल करते हुए श्री भंवरसिंह शेखावत पूर्व विधायक के नोहरे को शामिल कर राजू कोलसिया वाले मकान को दाहिना छोड़ते हुए पूर्व की तरफ मुड़कर श्री दुर्गा प्रसाद मास्टर अजीज बिसायती के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए हनीफ बिसायती के मकान तक वहां से उतर की तरफ चलकर कासम, युसुफ जाटव, असलम पार्श्व के मकानों को शामिल कर बबलु खान के मकानों को दाहिना छोड़ते हुए हुसैन खान जाटव के मकान को शामिल कर पश्चिम की तरफ रास्ते-रास्ते बिसायतियों की मस्जिद को शामिल कर पुन ईस्माईल पुत्र महमदा लिलगर (पूर्व पार्श्व) के तक का समस्त बायां क्षेत्र।</p>
४१	<p>बावड़ी गेट के दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क छगन बगड़िया की दुकान को शामिल कर पूर्व में मुड़कर दामोदर जोशी चोबारे को दाहिना छोड़ते हुए प्रमेश्वर ठठेरा के मकान तक</p>

	<p>वहां से दक्षिण में सार्वजनिक औषधालय को शामिल कर सड़क पर वहां से पूर्व में सड़क-सड़क पोदार गेट होकर चौखानी आईस फैक्ट्री तक वहां से उतर की तरफ चौखानी आईस फैक्ट्री, भगतो की हवेली को बायीं ओर छोड़ते हुए मोहनलाल सुनार के मकान को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर भगतो का कुआ व शिववालय को दाहिना छोड़ते हुए सागरमल कोलसिया के मकान तक सागरमल कोलसिया के मकान को छोड़ते हुए उतर में मुड़कर मोर गेस्ट हाउस को दाहिना छोड़ते हुए राजकीय मोर माध्यमिक विद्यालय के पास सड़क पर वहां से दक्षिण में चलकर रामाकान्त वैद्य के मकान तक वहां से दक्षिण में मुड़कर रास्ते-रास्ते बादशाह के हवेली को शामिल कर पश्चिम में मुड़कर चैलासी रोड़ पर वहां से दक्षिण की ओर मुड़कर सड़क-सड़क चलकर बावड़ी गेट का समस्त बाया क्षेत्र।</p>
४२	<p>बागे खान के नोहरे से उतर में चलकर इस्माईल पुत्र महम्मदा लिलगर पार्षद के मकान को दाहिना छोड़ते हुए मुलाजी पिर साहब, मोतीलाल के मकान को शामिल कर फूलचन्द, मालीराम माली के मकान तक वहां से पूर्व में रास्ते-रास्ते भगतो की पट्टाशूदा जमीन में बसी आबादी को दाहिना छोड़ते हुए गीगाराम सैनी, मगाराम, सावंलराम, इस्माईल काजी की गुवाड़ी को शामिल करते हुए मनु मुला लीलगर को दाहिना छोड़ते हुए उतर की तरफ जिकरूदीन काजी के मकान को दाहिना छोड़ते हुए सिंगोदिया भवन को शामिल करते हुए बड़ गट्टा तक वहां से पश्चिम में रास्ते-रास्ते खातियों के गुवाड़ी वाली गली को शामिल करते हुए श्री रामेश्वर लाल, सुण्डाराम के घर को शामिल करते हुए कुए को शामिल कर उतर में जांव को शामिल करते हुए कच्चे रास्ते-रास्ते उतर की तरफ चलकर वहां से पश्चिम की तरफ चलकर भंवरलाल के मकान तक वहां से दक्षिण की तरफ रास्ते-रास्ते श्री किशनलाल, पूर्णमल, अर्जुनलाल, मुंगालाल के मकानों को शामिल कर बजरंग लाल/भोलाराम माली (तसीड़) तक वहां से पश्चिम में रास्ते-रास्ते सुरजाराम माली को दाहिना छोड़ते हुए बांकली कोठी के रास्ते पर ईश्वर दत्त पंडित (जनेऊ वाला) को छोड़ते हुए मातादीन सुनार तक वहां से दक्षिण में चलकर श्री रामाकान्त वैद्य के मकान तक वहां से पूर्व में चलकर राजकीय उ.मा.वि. मोर व प्राईमरी मोर को शामिल कर दक्षिण में मुड़कर मोर गेस्ट हाउस को शामिल करते हुए भिखराज चिरानिया, सागर कोलसिया वाले के मकान को शामिल कर पूर्व की तरफ सड़क-सड़क भगतो का कुआ, शिव मंदिर शामिल कर उतर की तरफ मुड़कर भरत मुरारका की हवेली, चूड़ीवालो की हवेली को शामिल कर बागे खान के नोहरे तक समस्त बायां क्षेत्र।</p>
४३	<p>अशोक बीबासरिया के मकान से उतर में मातादीन सुनार के मकान तक वहां से पूर्व में ईश्वर पंडित के नोहरे को शामिल कर सुनारों के मकान, मोर मंदिर, बगेड़ियों की हवेली को दाहिना छोड़ते हुए सुरजा राम, लक्ष्मण पुत्र सांवरमल माली के मकानों को शामिल करते हुए मोरो के नोहरे को दाहिना छोड़ते हुए उतर में रास्ते-रास्ते बजरंगलाल सैनी को दाहिना छोड़ते हुए नदीपुरा में बसी बलाई मोहल्ले को शामिल करते हुए उतर सीमा तक वहां से पश्चिम की तरफ सीमा-सीमा चलकर क्यामखानी मोहल्ले को शामिल करते हुए मुकुन्दगढ़ रोड़ तक वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क भोलाराम सैनी के जांव तक वहां से पूर्व में सड़क-सड़क नागरमल पुत्र सुरजाराम माली के जांव व गुटीराम सैनी की</p>

	गुवाड़ी को दक्षिण में छोड़ते हुए चैलासी रोड़ तक वहां से दक्षिण की तरफ सड़क-सड़क लक्ष्मीनारायण शास्त्री के मकान, कालबेलियों की कोठी/जांव को दाहिना छोड़ते हुए अशोक बीबासरिया के मकान के उतरी-पश्चिमी कोने तक वहां से पूर्व में अशोक बीबासरिया के उतरी-पूर्वी के कोने तक का समस्त बायां क्षेत्र।
४४	मुरारका के बीर बालाजी के सामने से पूर्व में रास्ते-रास्ते नाहर मिश्रा के शिववालय को शामिल करते हुए चैलासी रोड़ पर वहां से उतर की तरफ सड़क-सड़क लक्ष्मीनारायण शास्त्री के मकान व कालबेलियों की कोठी व जावं व मकानों को शामिल करते हुए गुटीराम सैनी की गुवाड़ी तक वहां से पश्चिम में सड़क-सड़क क्यामखानी के समस्त मोहल्ले को दाहिना छोड़ते हुए नागरमल पुत्र सुरजाराम माली की जावं को शामिल कर भोलाराम सैनी के जांव को दाहिना छोड़ते हुए सड़क पर (मुकुन्दगढ रोड़ पर) वहां से दक्षिण की तरफ राजेन्द्र, ताराचन्द्र, भूराराम की गुवाड़ी व हेमराज कुलवाल का कुआ व कुम्हारों की बस्ती को शामिल करते हुए बीर बालाजी के मंदिर के सामने तक का समस्त बाया क्षेत्र।
४५	हेम जी कुलवाल के नोहरे से पूर्व की तरफ कब्रिस्तान को दाहिना छोड़ते हुये उतर की तरफ बांयी ओर बसी आबादी को शामिल कर दाहिनी ओर बसी आबादी को छोड़ते हुये ईकबाल हाथी खानी के मकान को दाहिना छोड़ते हुये सत्तार की दुकान व कोठी शामिल करते हुये बट्टी प्रसाद गोवला हवेली शामिल कर वीर बालाजी के सामने से सड़क-सड़क चौखानी गैस गोदाम शामिल कर उतरी सीमा तक वहां से पश्चिम में चलकर जयपुर लुहारू रोड़ पर वहां से दक्षिण में चलकर सैनी छात्रावास को शामिल कर सांवर मल माली के जांव तक वहां से पूर्व की तरफ मुडकर जावं को शामिल कर सूरजा, नानू के मकानों को दाहिनी तरफ छोड़ते हुये जयपुरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय को शामिल करते हुये सरकारी अस्पताल को दाहिना छोड़ते हुये दक्षिण में चलकर अब्बास के मकान व दुकान को शामिल कर दामोदर प्रसाद जोशी के मकान को शामिल कर हेमराज कुलवाल नोहरे तक समस्त बांया क्षेत्र।

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका नवलगढ

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।